

बिहार का खराब स्वास्थ्य ढाँचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार को खराब प्रदर्शन के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन (2016-2022) पर [नियंत्रक और महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) की ऑडिट रिपोर्ट को चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया था।

- रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गंभीर कमियों को उजागर किया गया है, जिसमें संसाधनों की भारी कमी, बजट का कम उपयोग और प्रणालीगत अकुशलताएँ शामिल हैं तथा संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मुख्य बूटि

- स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की कमी:**
 - बिहार में स्वास्थ्य सेवा नदिशालय, राज्य औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा वगि, [आयुष \(AYUSH\)](#) और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (MCH) सहित प्रमुख स्वास्थ्य विभागों में 49% पद रिक्त हैं।
 - [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) द्वारा प्रति 1,000 व्यक्तियों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर की सफारिश के विपरीत, बिहार में प्रति 2,148 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर का अनुपात था (आवश्यक 1,24,919 के तुलना में 58,144 डॉक्टर उपलब्ध थे)।
 - पटना में स्टाफ नर्सों की कमी 18% से लेकर पूर्णिया में 72% तक थी, जबकि जमुई में पैरामेडिकल की कमी 45% से लेकर पूरबी चंपारण में 90% तक थी।
 - जनवरी 2022 तक 24,496 पदों में से 13,340 स्वास्थ्य सेवा पदों पर भरती लंबित रही।
- बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं में अंतराल:**
 - नरीक्षण किये गये चारों उप-जिला अस्पतालों (SDH) में से किसी में भी कार्यात्मक ऑपरेशन थियटर (OT) नहीं था, जो भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) का उल्लंघन था।
 - 11 परीक्षण-जाँच सुविधाओं में केवल 1% से 67% गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड (IFA) गोलीयों का पूरा कोर्स प्राप्त हुआ।
 - वर्ष 2016-22 के दौरान रिपोर्ट किये गए 24 मामलों में से केवल 1 में मातृ मृत्यु समीक्षा की गई।
 - 68 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में 19% से 100% आवश्यक नदिन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं।
- दवाओं और उपकरणों की कमी:**
 - वर्ष 2016-22 के दौरान 21% से 65% बाह्य रोगी विभागों (OPD) में तथा 34% से 83% अंतः रोगी विभागों (IPD) में आवश्यक दवाएँ उपलब्ध नहीं थीं।
 - मेडिकल कॉलेजों ने वतित वर्ष 2019-21 में आपूर्ति न होने के कारण 45% से 68% दवाओं की कमी की सूचना दी।
- बजट उपयोग और नीतगित अंतराल:**
 - बिहार ने वतित वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच स्वास्थ्य देखभाल बजट के आवंटित 69,790.83 करोड़ रुपए का केवल 69% खर्च किया, जिससे 21,743.04 करोड़ रुपए अप्रयुक्त रह गए।
 - [सकल राज्य घरेलू उत्पाद \(GSDP\)](#) की तुलना में स्वास्थ्य सेवा पर व्यय 1.33% से 1.73% के बीच रहा तथा राज्य बजट की तुलना में यह 3.31% से 4.41% के बीच रहा।
 - बिहार में बुनियादी ढाँचे और उपकरणों की कमी को दूर करने के लिये [राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017](#) के अनुरूप एक व्यापक स्वास्थ्य नीति का अभाव था।
- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) प्रदर्शन:**
 - [नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट \(2020-21\)](#) में बिहार को [SDG-3 \(स्वास्थ्य कषेत्र\)](#) के तहत 100 में से 66वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
 - [मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर](#) जैसे स्वास्थ्य संकेतकों पर राज्य का प्रदर्शन SDG लक्ष्यों और राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- परचिय:
 - **संवधान के अनुच्छेद 148** के अनुसार भारत का CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा वभिग (IA-AD) का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक खजाने की सुरक्षा और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देख-रेख के लिये ज़म्मेदार होता है।
 - CAG वित्तीय प्रशासन में **संवधान और संसदीय कानूनों को कायम रखता है और इसे सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग** के साथ भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है।
 - भारत का CAG **नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971** द्वारा शासति होता है, जसिमें 1976, 1984 और 1987 में महत्त्वपूर्ण संशोधन कयि गए।
- नयिक्त एवं कार्यकाल:
 - भारत के CAG की नयिक्ति **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ एक वारंट द्वारा की जाती है। पदधारी **छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक**, जो भी पहले हो, पद पर कार्य करता है।
- स्वतंत्रता:
 - CAG को केवल संवधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bihars-poor-health-infrastructure>

